



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदे 1)

लखनऊ, मंगलवार, 23 जुलाई, 2024

श्रावण 1, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3

संख्या 599/65-3099-616-2019

लखनऊ, 23 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प0आ0-184

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 21, 22 और 23 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 79 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन प्रो० हिमांशु शेखर झा को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के पद पर नियुक्त करती हैं:-

(एक) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 21 (2) के अनुसार प्रो० हिमांशु शेखर झा को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, यदि वे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में हों तो, उन्हें ऐसे पद से सेवानिवृत्त होना होगा;

(दो) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 23 (1) के अनुसार प्रो० हिमांशु शेखर झा को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा;

(तीन) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में प्रो० हिमांशु शेखर झा का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें पूर्वोक्त नियमावली के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार होंगी।

आज्ञा से,
सुभाश चन्द भार्मा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 599/LXV-3099-616-2019, dated July 23, 2024:

No. 599/LXV-3099-616-2019

Dated July 23, 2024

IN exercise of the powers under section 79 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016) *read* with rule 21, 22 and 23 of the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, the Governor is pleased to appoint Prof. Himanshu Shekhar Jha to the post of the State Commissioner for Persons with Disabilities as per the terms and conditions mentioned hereunder:-

(i) According to the rule 21 (2) of the aforesaid rules, Prof. Himanshu Shekhar Jha shall seek retirement from the service under the Central Government or a State Government if he is serving as such, before he joins as the State Commissioner for Persons with Disabilities;

(ii) According to the rule 23 (1) of the aforesaid rules, Prof. Himanshu Shekhar Jha shall be appointed as State Commissioner for Persons with Disabilities for a period of three years from the date on which he assumes office;

(iii) Salary, allowances and other terms and conditions of service of Prof. Himanshu Shekhar Jha as State Commissioner for Persons with Disabilities shall be in accordance with the relevant provisions of the aforesaid rules.

By order,
SUBHASH CHAND SHARMA,
Pramukh Sachiv.